

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 1966/अग्रहायण 11, 1888

No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 1966/AGRAHAYANA 11, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December 1966

G.S.R. 1847/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clauses 6, 7, 8 and 9 of the said Order shall also be exercisable by the Government of the State of Haryana and that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 1127/Ess. Com./Sugarcane dated the 16th July, 1966, namely:—

In the said notification, after the word "Gujarat," the word "Haryana," shall be inserted.

[No. 7-20/66-S. Py.]

K. L. PASRICHA, Jt. Secy.

(897)

